

## Class Notes

**Class:** छठवीं

**Topic:** पाठ-9  
टिकट अलबम

**Subject:** वसंत भाग-1

**Date:** 30.09.21

### बहुविकल्पीय प्रश्न

1. नागराज को अलबम कहाँ से भिजवाया गया था ?

- अ. सिंगापुर से
- ब. हाँगकाँग से
- स. लंदन से
- द. न्यूयार्क से

उत्तर- अ. सिंगापुर से

2. लड़कियों की अगुवा कौन थी ?

- अ. मीनाक्षी
- ब. कामाक्षी
- स. पार्वती
- द. सीता

उत्तर- स. पार्वती

3. टिकट की तलाश में राजप्पा घर से सुबह कितने बजे निकल जाता था ?

- अ. पाँच
- ब. सात
- स. आठ
- द. नौ

उत्तर- स. आठ

4. राजप्पा मन-ही-मन क्या कर रहा था ?

- अ. प्रसन्न हो रहा था
- ब. कुढ़ रहा था
- स. हँस रहा था
- द. सोच रहा था

उत्तर- ब. कुढ़ रहा था

5. राजप्पा को किसके अलबम से चिढ़ हो गई थी ?

- अ. नागराजन के
- ब. पप्पू के
- स. अपने
- द. किसी के भी नहीं

उत्तर- स. अपने

6. राजप्पा ने नागराजन का अलबम किसके पीछे छिपा दिया ?

- अ. अलमारी
- ब. ड्रम
- स. पलंग
- द. बिस्तर

उत्तर- अ. अलमारी

7. राजप्पा का चेहरा कैसा हो गया ?

- अ. सफ़ेद
- ब. तमतमा गया
- स. काला पड़ गया
- द. लाल हो गया

उत्तर- ब. तमतमा गया

8. अँगीठी पर क्या चढ़ा था ?

- अ. देगची
- ब. पतीला
- स. ड्रम
- ल. केतली

उत्तर- अ. देगची

9. किसकी आँखों में आँसू थे ?

- अ. कृष्णन
- ब. अप्पू
- स. नागराजन
- द. राजप्पा

उत्तर- द. राजप्पा

10. राजप्पा का शरीर कैसा हो गया ?

- अ. ठंडा
- ब. गर्म
- स. जलने लगा
- द. गलने लगा

उत्तर- स. जलने लगा

**पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर-**

प्रश्न- नागराजन ने अलबम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों ? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के-लड़कियों पर क्या हुआ ?

उत्तर- अलबम पर नागराजन के मामा ने उसका नाम सुंदर अक्षरों में लिखकर भेजा था। नागराजन ने अलबम के मुखपृष्ठ पर लिखा था कि, "इस अलबम को चुराने वाला बेशर्म है। जब तक घास हरी, कमल लाल है, सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे उस अनंत काल तक के लिए यह अलबम मेरा रहेगा।" इन शब्दों का दूसरे लड़के-लड़कियों पर गहरा असर पड़ा। लड़कों ने इसे अपने अलबम पर और लड़कियों ने अपनी कॉपियों और किताबों पर उतार लिया।

प्रश्न- नागराजन के अलबम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई ?

उत्तर नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए बहुत सुंदर अलबम भेजा था सभी लड़के लड़कियों को उसका अलबम बहुत अच्छा लगा था। नागराजन के अलबम से पहले सभी बच्चों में राजप्पा का टिकट-अलबम प्रसिद्ध था। जब से नागराजन का अलबम हिट हुआ राजप्पा मन-ही- मन कुढ़ने लगा था। वह सबसे लड़ पड़ता था। वह स्कूल के बाद सारा दिन घर में घुसा रहता था। उसे नागराजन से ईर्ष्या होने लगी थी कि बिना मेहनत किए उसे इतना अच्छा अलबम मिल गया।

### मूल्यपरक प्रश्न-

प्रश्न- हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों ?

उत्तर- ईर्ष्या मनुष्य के मस्तिष्क को भ्रष्ट कर देती है। उसे उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रहता। इसके वशीभूत वह ऐसा काम करने लगता है, जिस कारण उसे पछताना पड़ता है। साथ ही वह दूसरों का नुकसान भी कर बैठता है। इसलिए हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।